



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

28 फाल्गुन 1935 (श0)  
(सं0 पटना 311) पटना, बुधवार, 19 मार्च 2014

---

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

19 मार्च 2014

सं0 बी1-3-51/2014-12—लोक सभा का आम निर्वाचन, 2014 के अवसर पर 28—मुंगेर, 29—नालन्दा, 30—पटना साहिब, 31—पाटलिपुत्र, 32—आरा, 33—बक्सर एवं 36—जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 19.03.2014 एवं भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-464/2014 (5) दिनांक 19.03.2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
हुसैन युसूफ रिजवी,  
संयुक्त सचिव।

**विधि और न्याय मंत्रालय**  
**विधायी विभाग**

**अधिसूचना**

**नई दिल्ली-19 मार्च 2014/फाल्गुन 28, 1935 (शक)**

का० आ० .....(अ)—पंद्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति पर नई लोक सभा गठित किए जाने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराए जाने का विनिश्चय किया गया है:

अतः अब, राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-14 की उप-धारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथाविनिष्ट तत्स्थानी असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल राज्यों में समाविष्ट उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं:

राज्य (1)	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (2)	
असम	1-करीमगंज (अ० जा०)	
	2-सिल्वर	
	3-स्वशासी जिले (अ० ज०जा०)	
बिहार	28 - मुंगेर	
	29 - नालंदा	
	30 - पटना साहिब	
	31 - पाटलीपुत्र	
	32 - आरा	
	33 - बक्सर	
	36 - जहानाबाद	
छत्तीसगढ़	6-राजनांदगांव	
	9-महासमुन्द	
	11-कांकेर (अ० ज०जा०)	
गोवा	1-उत्तर गोवा	
	2-दक्षिण गोवा	
जम्मू-कश्मीर	5-उधमपुर	
	6-गिरिडीह	
झारखंड	8-रॉंची	
	9-जमशेदपुर	
	10-सिंहभूम (अ० ज०जा०)	
	11-खूंटी (अ० ज०जा०)	
	14-हजारीबाग	
	कर्नाटक	1-चिक्कोडी
		2-बेलगाम
		3-बागलकोट
		4-बीजापुर (अ० जा०)
		5-गुलबर्ग (अ० जा०)
		6-रायचूर (अ० ज० जा०)
		7-बीदर
		8-कोप्पल
		9-बेल्लारी (अ० ज० जा०)
		10-हावेरी
11-धरवाड़		
12-उत्तर कन्नड़		
13-दावन्नोरे		
14-शिमोगा		
15-उदीपी चिकमगलुर		

	16-हसन
	17-दक्षिण कन्नड़
	18-चित्रदुर्ग (अ0 जा0)
	19-टुमकुर
	20-मान्डया
	21-मैसूर
	22-चामराजनगर (अ0 जा0)
	23-बंगलौर ग्रामीण
	24-बंगलौर उत्तर
	25-बंगलौर केन्द्रीय
	26-बंगलौर दक्षिण
	27-चिक्काबल्लापुर
	28-कोलार (अ0 जा0)
मध्य प्रदेश	01-मुरैना
	02-भिंड (अ0 जा0)
	03-ग्वालियर
	04-गुना
	05-सागर
	06-टीकमगढ़ (अ0 जा0)
	07-दामोह
	08-खजुराहो
	19-भोपाल
	20-राजगढ़
महाराष्ट्र	15-हिंगोली
	16-नांदेड
	17-परमणी
	33-मावल
	34-पुणे
	35-बासमती
	36-शिरूर
	37-अहमदनगर
	38-शिरडी (अ0 जा0)
	39-बीड
	40-उस्मानाबाद
	41-लातूर (अ0 जा0)
	42-शोलापुर (अ0 जा0)
	43-माधा
	44-सांगली
	45-सतारा
	46-रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग
	47-कोल्हापुर
	48-हातकण्गले
मणिपुर	1-आंतरिक मणिपुर
ओडिशा	4 - क्योन्झर (अ.ज.जा.)
	5 - मयूरभंज (अ.ज.जा.)
	6 - बालासोर
	7 - भाद्रक (अ.जा.)
	8 - जाजपुर (अ.जा.)
	9 - धेन्कानाल
	14 - कटक
	15 - केन्द्रपाड़ा

	16 – जगतसिंहपुर (अ.जा.)
	17 – पुरी
	18 – भुवनेश्वर
राजस्थान	1–गंगानगर (अ.जा.)
	2–बीकानेर (अ.जा.)
	3–चुरु
	4–झुन्झुनू
	5– सीकर
	6–जयपूर ग्रामीण
	7–जयपुर
	13– अजमेर
	14–नागौर
	15– पाली
	16– जोधपुर
	17– बाड़मेर
	18– जालौर
	19– उदयपुर (अ.ज.जा.)
	20– बांसवाड़ा (अ.जा.)
	21– चित्तौड़गढ़
	22– राजसमन्द
	23– भीलवाड़ा
	24– कोटा
	25– झालावाड़.बारां
सिक्किम	1–सिक्किम
त्रिपुरा	2–त्रिपुरा पूर्व (अ.ज.जा.)
उत्तर प्रदेश	5– नगीना (अ.जा.)
	6– मुरादाबाद
	7–रामपुर
	8–सम्भल
	9–अमरोहा
	23–बदायूं
	24–ऑंवला
	25–बरेली
	26–पीलीभीत
	27–शाहजहांपुर (अ.जा.)
	28–खीरी
पश्चिमी बंगाल	1–कूच बिहार (अ.जा.)
	2–अलीपुर द्वारस (अ.ज.जा.)
	3–जलपाईगुड़ी (अ.जा.)
	4–दार्जिलिंग

पी के मल्होत्रा,  
सचिव, भारत सरकार  
(फा0 एच0 11024(2)/2014-वि02)

**Ministry of Law and Justice**  
**Legislative Department**

**NOTIFICATION**

*New Delhi, the 19<sup>th</sup> March, 2014/Phalgun 28, 1935(Saka)*

S.O. ....(E):- Whereas it has been decided to hold a general election for the purpose of constituting a new House of the People, on the expiration of the term of fifteenth House of the People.

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in sub-section(2) of section 14 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951), the President is pleased to call upon the Parliamentary constituencies, specified, in column(2) of the Table given below comprised within the corresponding States of Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Odisha, Rajasthan, Sikkim, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal, as specified in column(1) of the said Table, to elect members in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:

State (1)	Parliamentary Constituency (2)
ASSAM	1-Karimganj (SC)
	2-Silchar
	3-Autonomous District (ST)
BIHAR	28-Munger
	29-Nalanda
	30-Patna Sahib
	31-Pataliputra
	32-Arrah
	33-Buxar
	36-Jahanabad
CHHATTISGARH	6-Rajnandgaon
	9-Mahasamund
	11-Kanker (ST)
GOA	1-North Goa
	2-South Goa
JAMMU & KASHMIR	5-Udhampur
JHARKHAND	6-Giridih
	8-Ranchi
	9-Jamshedpur
	10-Singhbhum (ST)
	11-Khunti (ST)
	14-Hazaribagh
KARNATAKA	1-Chikkodi
	2-Belgaum
	3-Bangalkot
	4-Bijapur (SC)

	5-Gulbarga(SC)
	6-Raichur (ST)
	7-Bidar
	8-Koppal
	9-Bellary (ST)
	10-Haveri
	11-Dharwad
	12-Uttara Kannada
	13-Davanagere
	14-Shimoga
	15-Udupi Chikmagalur
	16-Hassan
	17-Dakshina Kannada
	18-Chitradurga (SC)
	19-Tumkur
	20-Mandya
	21-Mysore
	22-Chamarajanagar (SC)
	23-Bangalore Rural
	24-Bangalore North
	25-Bangalore Central
	26-Bangalore South
	27-Chikkballapur
	28-Kolar (SC)
MADHYA PRADESH	1-Morena
	2-Bhind(SC)
	3-Gwalior
	4-Guna
	5-Sagar
	6-Tikamgarh (SC)
	7-Damoh
	8-Khajuraho
	19-Bhopal
	20-Rajgarh
MAHARASHTRA	15-Hingoli
	16-Nanded
	17-Parbhani
	33-Maval
	34-Pune
	35-Baramati
	36-Shirur
	37-Ahmednagar
	38-Shirdi (SC)
	39-Beed

	40-Osmanabad
	41-Latur (SC)
	42-Solapur (SC)
	43-Madha
	44-Sangli
	45-Satara
	46-Ratnagiri-sindhudurg
	47-Kolhapur
	48-Hatkanangle
MANIPUR	1-Inner Manipur
ODISHA	4-Keonjhar (ST)
	5-Mayurbhanj (ST)
	6-Balasore
	7-Bhadrak (SC)
	8-Jajpur (SC)
	9-Dhenkanal
	14-Cuttack
	15-Kendrapara
	16-Jagatsinghpur (SC)
	17-Puri
	18-Bhubaneswar
RAJASTHAN	1-Ganganagar (SC)
	2-Bikaner (SC)
	3-Churu
	4-Jhunjhunu
	5-Sikar
	6-Jaipur Rural
	7-Jaipur
	13-Ajmer
	14-Nagaur
	15-Pali
	16-Jodhpur
	17-Barmer
	18-Jalore
	19-Udaipur (ST)
	20-Banswara (ST)
	21-Chittorgarh
	22-Rajsamand
	23-Bhilwara
	24-Kota
	25-Jhalawar-Baran
SIKKIM	1-Sikkim
TRIPURA	2-Tripura East (ST)
UTTAR PRADESH	5-Nagina(SC)

	6-Moradabad
	7-Rampur
	8-Sambhal
	9-Amroha
	23-Badaun
	24-Aonla
	25-Bareilly
	26-Pilibhit
	27-Shahjahanpur (SC)
	28-Kheri
WEST BENGAL	1-Coochbehar (SC)
	2-Alipurduars (ST)
	3-Jalpaiguri (SC)
	4-Darjeeling

(P.K. Malhotra)  
Secretary of the Government of India  
(F.H-11024(2)/2014-Leg-II)



भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/दिनांक 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935 (शक)

सं. 464/2014 (5)—यतः, भारत के राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-14 की उप-धारा (2) के अधीन जारी और दिनांक 19 मार्च, 2014 (बुधवार) को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा संलग्न अनुसूची में उल्लिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के, इस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दिए जाएं;

2. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, निम्न रूप से नियत करता है :

(अ) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में :-

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख - 26 मार्च, 2014 (बुधवार)

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 27 मार्च, 2014 (गुरुवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 29 मार्च, 2014 (शनिवार)

(घ) अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में तदनु रूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा, और

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व उक्त उल्लिखित संसदीय - 28 मई, 2014 (बुधवार)

निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा, और,

(आ) उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट समय को ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, इस अनुसूची के स्तंभ (1) में तदनु रूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को, निर्वाचन के लिए मतदान होगा।

अनुसूची

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, दिनांक तथा मतदान का समय

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	मतदान की तारीख	मतदान का समय
1	2	3
<b>1 - बिहार</b>		
28 - मुंगेर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
29 - नालंदा	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
30 - पटना साहिब	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
31 - पाटलीपुत्र	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
32 - आरा	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
33 - बक्सर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
36 - जहानाबाद	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
<b>2 - छत्तीसगढ़</b>		
<b>6 - राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र</b>		
71- पंडरिया वि. स. नि. क्षेत्र	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
72- कवर्धा वि. स. नि. क्षेत्र		
73- खैरागढ़ वि. स. नि. क्षेत्र		
74- डोंगरगढ़ (अ.जा.) वि. स. नि. क्षेत्र		
75- राजनांदगांव वि. स. नि. क्षेत्र		
76- डोंगरगांव वि. स. नि. क्षेत्र		
77- खुज्जी वि. स. नि. क्षेत्र		
78- मोहला-मानपुर (अ.जा.) वि. स. नि. क्षेत्र	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक
9 - महासमुन्द	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
<b>11 - कांकेर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र</b>		
56- सिहावा (अ.जा.) वि. स. नि. क्षेत्र	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
59- सन्जारी बालोद वि. स. नि. क्षेत्र		

60- डोंडी लोहारा (अ.ज.जा.) वि. स. नि. क्षेत्र		
61- गुन्डरदेही वि. स. नि. क्षेत्र		
79- अंतागढ़ (अ.ज.जा.) वि. स. नि. क्षेत्र	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक
80- भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.) वि. स. नि. क्षेत्र		
81- कांकेर (अ.ज.जा.) वि. स. नि. क्षेत्र		
82- केशकाल (अ.ज.जा.) वि. स. नि. क्षेत्र		
<b>3 - जम्मू एवं कश्मीर</b>		
5 - उधमपुर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
<b>4 - झारखण्ड</b>		
6- गिरिडीह	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक
8- रांची	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक
9- जमशेदपुर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक
10- सिंहभूम (अ.ज.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक
11- खूंटी (अ.ज.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक
14- हज़ारीबाग	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक
<b>5 - कर्नाटक</b>		
1 - चिक्कोडी	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
2 - बेलगाम	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
3 - बागलकोट	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
4 - बीजापुर (अ.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
5 - गुलबर्गा (अ.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
6 - रायचूर (अ.ज.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
7 - बीदर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
8 - कोप्पल	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
9 - बेल्लारी (अ.ज.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
10 - हावेरी	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
11 - धारवाड़	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
12 - उत्तर कन्नड़	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
13 - दावन्गेरे	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
14 - शिमोगा	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
15 - उदीपी चिकमगलूर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
16 - हसन	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
17 - दक्षिण कन्नड़	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
18 - चित्रदुर्ग (अ.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
19 - टुमकूर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
20 - मान्ड्या	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
21 - मैसूर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
22 - चामराजनगर (अ.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
23 - बंगलौर ग्रामीण	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
24 - बंगलौर उत्तर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
25 - बंगलौर केन्द्रीय	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
26 - बंगलौर दक्षिण	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
27 - चिक्काबल्लापुर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक

28 - कोलार (अ.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
<b>6 - मध्य प्रदेश</b>		
01 - मुरैना	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
02 - भिण्ड (अ.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
03 - ग्वालियर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
04 - गुना	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
05 - सागर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
06 - टीकमगढ़ (अ.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
07 - दमोह	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
08 - खजुराहो	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
19 - भोपाल	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
20 - राजगढ़	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
<b>7 - महाराष्ट्र</b>		
15 - हिंगोली	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
16 - नांदेड़	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
17 - परभणी	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
33 - मावल	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
34 - पुणे	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
35 - बारामती	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
36 - शिरूर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
37 - अहमदनगर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
38 - शिरडी (अ.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
39 - बीड	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
40 - उस्मानाबाद	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
41 - लातूर (अ.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
42 - शोलापुर (अ.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
43 - माधा	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
44 - सांगली	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
45 - सतारा	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
46 - रत्नागिरि - सिंधदूर्ग	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
47 - कोल्हापुर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
48 - हातकणंगले	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
<b>8 - मणिपुर</b>		
1 - आन्तरिक मणिपुर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक
<b>9 - ओडिशा</b>		
4 - क्योन्झर (अ.ज.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
5 - मयूरभंज (अ.ज.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
6 - बालासोर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
7 - भद्रक (अ.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
8 - जाजपुर (अ.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
9 - धेन्कानाल	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
14 - कटक	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
15 - केन्द्रपाड़ा	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
16 - जगतसिंहपुर (अ.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
17 - पुरी	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
18 - भुवनेश्वर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक

10 – राजस्थान		
1 – गंगानगर (अ.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
2 – बीकानेर (अ.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
3 – चुरु	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
4 – झुन्झुनू	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
5 – सीकर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
6 – जयपुर ग्रामीण	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
7 – जयपुर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
13 – अजमेर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
14 – नागौर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
15 – पाली	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
16 – जोधपुर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
17 – बाड़मेर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
18 – जालौर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
19 – उदयपुर (अ.ज.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
20 – वांसवाड़ा (अ.ज.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
21 – चित्तौड़गढ़	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
22 – राजसमन्द	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
23 – भीलवाड़ा	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
24 – कोटा	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
25 – झालावाड़ – बारां	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
11 – उत्तर प्रदेश		
5 – नगीना (अ.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
6 – मुरादाबाद	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
7 – रामपुर	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
8 – सम्भल	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
9 – अमरोहा	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
23 – बदायूं	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
24 – आंवला	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
25 – बरेली	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
26 – पीलीभीत	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
27 – शाहजहाँपुर (अ.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
28 – खीरी	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
12 – पश्चिम बंगाल		
1 – कूच बिहार (अ.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
2 – अलीपुर द्वारस (अ.ज.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
3 – जलपाईगुड़ी (अ.जा.)	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक
4 – दार्जिलिंग	17 अप्रैल, 2014 (गुरुवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक

आदेश से,  
**सुमित मुखर्जी,**  
 सचिव,  
 भारत निर्वाचन आयोग।

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

**NOTIFICATION**

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/Dated the 19<sup>th</sup> March, 2014/  
28 Phalguna, 1935 (Saka)*

**No. 464/ 2014 (5)—WHEREAS**, the President of India has, by notification issued under sub-section (2) of Section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on the 19<sup>th</sup> March, 2014 (Wednesday), been pleased to call upon each of the parliamentary constituencies, specified in column (1) of the Schedule below, in the States or Union Territories mentioned in the Schedule, to elect members to the House of the People, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

2. **Now, therefore**, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby -

(A) **Appoints**, with respect to the said election, from each of the parliamentary constituencies specified in the said Schedule, -

(a) **the 26<sup>th</sup> March, 2014 (Wednesday)**, as the last date for making nominations;

(b) **the 27<sup>th</sup> March, 2014 (Thursday)**, as the date for scrutiny of nominations;

(c) **the 29<sup>th</sup> March, 2014 (Saturday)**, as the last date for withdrawal of candidatures;

(d) the date, specified in column (2) of the **SCHEDULE** below, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken in the parliamentary constituencies, specified in the corresponding entry in column (1) of the said Schedule; and

(e) **the 28<sup>th</sup> May, 2014 (Wednesday)**, as the date before which the election shall be completed in all the above mentioned parliamentary constituencies; and

(B) **Fixes the hours** specified in Column (3) of the said Schedule, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the constituencies, specified in the corresponding entry in column (1) of the said Schedule, on the date specified against such constituency in column (2) thereof, for the above election.

**SCHEDULE**

**Parliamentary Constituency, Dates and Hours of Poll**

<b>No. &amp; Name of Parliamentary Constituency</b>	<b>Date of Poll</b>	<b>Hours of Poll</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1 – BIHAR</b>		
28-Munger	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
29-Nalanda	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
30-Patna Sahib	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
31-Pataliputra	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
32-Arrah	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
33-Buxar	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
36-Jahanabad	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM

<b>2-CHHATTISGARH</b>		
<b>6-Rajnandgaon PC</b>		
71-Pandariya AC 72-Kawardha AC 73-Khairagarh AC 74-Dongargarh (SC) AC 75-Rajnandgaon AC 76-Dongargaon AC 77-Khujji AC	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
78-Mohla-Manpur (ST) AC	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
9-Mahasamund	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
<b>11-Kanker (ST) PC</b>		
56-Sihawa (ST) AC 59-Sanjari Balod AC 60-Dondi Lohara (ST) AC 61-Gunderdehi AC	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
79-Antagarh (ST) AC 80-Bhanupratappur (ST) AC 81-Kanker (ST) AC 82-Keshkal (ST) AC	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
<b>3-JAMMU &amp; KASHMIR</b>		
5-Udhampur	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
<b>4-JHARKHAND</b>		
6-Giridih	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
8-Ranchi	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
9-Jamshedpur	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
10-Singhbhum (ST)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
11-Khunti (ST)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
14-Hazaribagh	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
<b>5-KARNATAKA</b>		
1-Chikkodi	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
2-Belgaum	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
3-Bagalkot	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
4-Bijapur (SC)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
5-Gulbarga (SC)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
6-Raichur (ST)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
7-Bidar	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
8-Koppal	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
9-Bellary (ST)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
10-Haveri	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
11-Dharwad	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
12-Uttara Kannada	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM

13-Davanagere	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
14-Shimoga	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
15-Udupi Chikmagalur	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
16-Hassan	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
17-Dakshina Kannada	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
18-Chitradurga (SC)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
19-Tumkur	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
20-Mandya	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
21-Mysore	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
22-Chamarajanagar (SC)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
23-Bangalore Rural	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
24-Bangalore North	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
25-Bangalore Central	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
26-Bangalore South	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
27-Chikkballapur	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
28-Kolar (SC)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
<b>6-MADHYA PRADESH</b>		
01-Morena	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
02- Bhind (SC)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
03-Gwalior	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
04-Guna	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
05-Sagar	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
06-Tikamgarh (SC)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
07-Damoh	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
08-Khajuraho	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
19-Bhopal	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
20-Rajgarh	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
<b>7-MAHARASHTRA</b>		
15-Hingoli	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
16-Nanded	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
17- Parbhani	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
33-Maval	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
34-Pune	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
35-Baramati	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
36-Shirur	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
37-Ahmednagar	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
38-Shirdi (SC)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
39-Beed	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
40-Osmanabad	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
41-Latur (SC)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
42-Solapur (SC)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
43-Madha	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
44-Sangli	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
45-Satara	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
46-Ratnagiri-Sindhudurg	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM

47-Kolhapur	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
48-Hatkanangle	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
<b>8-MANIPUR</b>		
1-Inner Manipur	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 04:00PM
<b>9-ODISHA</b>		
4-Keonjhar (ST)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
5-Mayurbhanj (ST)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
6-Balasore	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
7-Bhadrak (SC)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
8-Jajpur (SC)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
9-Dhenkanal	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
14-Cuttack	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
15-Kendrapara	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
16-Jagatsinghpur(SC)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
17-Puri	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
18-Bhubaneswar	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
<b>10-RAJASTHAN</b>		
1- Ganganagar (SC)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
2- Bikaner (SC)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
3- Churu	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
4- Jhunjhunu	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
5- Sikar	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
6- Jaipur Rural	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
7- Jaipur	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
13- Ajmer	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
14- Nagaur	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
15- Pali	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
16- Jodhpur	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
17- Barmer	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
18- Jalore	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
19- Udaipur (ST)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
20-Banswara (ST)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
21- Chittorgarh	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
22- Rajsamand	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
23- Bhilwara	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
24- Kota	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
25-Jhalawar- Baran	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
<b>11-UTTAR PRADESH</b>		
5-Nagina (SC)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
6-Moradabad	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
7-Rampur	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
8-Sambhal	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
9-Amroha	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM



23-Badaun	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
24-Aonla	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
25-Bareilly	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
26-Pilibhit	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
27-Shahjahanpur (SC)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
28-Kheri	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
<b>12-WEST BENGAL</b>		
1-Coochbehar (SC)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
2-Alipurduars (ST)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
3-Jalpaiguri (SC)	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM
4-Darjeeling	17 <sup>th</sup> April, 2014 (Thursday)	07:00AM to 06:00PM

By order,  
**SUMIT MUKHERJEE,**  
*Secretary to the*  
*Election Commission of India.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 311-571+300-डी0टी0पी0।  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**